



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 30 जून को सुरक्षित रूप से शहर को दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 जून, 2021) – ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) की आज की घोषणा के बाद, सिटी इस बुधवार, 30 जून को, सुबह 12:01 बजे सुरक्षित रूप से शहर को दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के दूसरे पड़ाव (Step Two of the Province's Roadmap to Reopen) की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है। पब्लिक हेल्थ संकेतकों के मुताबिक लगातार सुधार और लोकल पब्लिक हेल्थ यूनिटों, हेल्थ केयर साझेदारों, म्युनिसिपल्टीज के साथ साझेदारी में प्रांत के द्वारा वैक्सीन की आधिकारिक शुरुआत (रोलआउट) और हमारी कम्युनिटी में जारी समर्पण के कारण यह पड़ाव, शेड्यूल से दो दिन पहले लागू किया जा रहा है।

30 जून से, शहर को दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के दूसरे पड़ाव के अंतर्गत, निम्नलिखित नियम और उपाय लागू होंगे:

- आउटडोर सामाजिक जनसमूहों और संगठित सार्वजनिक कार्यक्रमों में 25 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे
- इनडोर सामाजिक जनसमूहों और संगठित सार्वजनिक कार्यक्रमों में पांच व्यक्ति शामिल हो पाएंगे
- आउटडोर डाइनिंग (बाहर खानपान) में प्रति टेबल छह लोगों की अनुमति है
- जरूरी रिटेल के लिए 50 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है
- गैर-जरूरी रिटेल के लिए 25 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है
- शादी संबंधी सेवाओं और अंतिम संस्कार संबंधी सेवाओं सहित, बड़ी इनडोर धार्मिक सेवाओं, रस्मों या समारोहों के लिए, 25 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है, जबकि आउटडोर जगहों पर 2 मीटर की शारीरिक दूरी रखकर सीमित संख्या में व्यक्ति शामिल हो सकते हैं
- रातभर के कैम्प
- निजी देखभाल संबंधी सेवाओं के लिए अधिकतम 5 व्यक्तियों तक 25 प्रतिशत कैपेसिटी की अनुमति है, मास्क हर समय पहनना आवश्यक है और मुलाकात बुक करना जरूरी है
- आउटडोर मीटिंग और कार्यक्रम वाली जगहों पर 25 प्रतिशत कैपेसिटी की अनुमति है, जबकि इनडोर मीटिंग्स और कार्यक्रम वाली जगहें बंद हैं
- आउटडोर मनोरंजन और वाटर पार्क में 25 प्रतिशत कैपेसिटी की अनुमति है
- आउटडोर फिटनेस क्लासों की अनुमति है, जब तक कि लोग 3 मीटर की दूरी बनाकर रखें
- कुछ पाबंदियों के साथ, बिना संपर्क के या संपर्क के बचने के लिए संशोधित आउटडोर स्पोर्ट्स की अनुमति है
- आउटडोर स्पोर्ट्स लीग्स, गेम्स और कार्यक्रमों के लिए 25 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है
- इनडोर स्पोर्ट्स लीग्स, गेम्स और कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है, पेशेवर एथलीट्स/ग्युप्स/डे कैम्प आदि को छूट है



- आउटडोर सिनेमा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लाइव म्यूजिक कार्यक्रम और आकर्षणों के लिए 25 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है

प्रांत का रोडमैप टू रीओपन (Roadmap to Reopen) एक तीन-पड़ाव वाला प्लान है, जिसमें प्रांत को सुरक्षित रूप से और सावधानी से दुबारा खोलने की और पब्लिक हेल्थ संबंधी उपायों को धीरे-धीरे हटाने की योजना है। इन उपायों में ढील, पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर के मुख्य संकेतकों में हर प्रांत में वैकसीनेशन रेट और सुधारों के आधार पर दी जाएगी।

प्रांत की न्यूज रिलीज यहां (here) पढ़ें।

सिटी की सेवाएं और फैसिलिटीज

सिटी की आउटडोर रेक्रिएशनल सुविधाएं

दूसरे पड़ाव के दौरान, जिन आउटडोर रेक्रिएशनल सुविधाओं को खोलने की अनुमति दी गई है, उनमें शामिल हैं, गोल्फ कोर्स और ड्राइविंग रेंजेंस, सॉकर और अन्य स्पोर्ट्स फील्ड्स, बेसबॉल डायमंड्स और बैटिंग केजेस, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट्स, लॉन बॉलिंग तथा बोची, बी.एम.एक्स (BMX) तथा स्केट पार्क, और वेडिंग पूल्स (बच्चों वाले पूल्स) और स्पलैश पैड्स। प्रोफेसर्स लेक (Professor's Lake) बीच और एल्डोराडो पार्क (Eldorado Park) के आउटडोर पूल को, इस सीजन के लिए 30 जून से खोला जाएगा, यदि मौसम और पानी संबंधी स्थितियां ठीक होंगी।

सिटी की खास सुविधाओं को दुबारा खोलने की समय सीमाओं और कोविड-19 (COVID-19) के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी पैरामीटर्स संबंधी विवरणों के लिए, कृपया www.brampton.ca/summerfun पर जाएं।

स्पलैश पैड्स और वेडिंग पूल्स

सिटी के स्पलैश पैड्स, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक रोजाना खुलते हैं। यदि मौसम ठीक रहा तो चिंग्कूजी पार्क (Chinguacousy Park) में वेडिंग पूल 26 जून से सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रोजाना आने के लिए खुला है। शारीरिक दूरी रखना जरूरी है और निवासियों से अनुरोध है कि वे यहां आने से पहले, कोविड-19 के लक्षणों के लिए सेल्फ-असेसमेंट (खुद जांच) करें। स्पलैश पैड और वेडिंग पूल की जगहों और संचालन के घंटों की सूची, [यहां \(here\)](#) उपलब्ध है।

समर कैंप

व्यक्तिगत समर कैंप

बच्चों और युवाओं के लिए व्यक्तिगत समर कैंप, 5 जुलाई से शुरू होंगे। कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन, अभी भी www.brampton.ca/reccamps पर करवाया जा सकता है। इन कैंपों में, सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:45 बजे से शाम 5:15 तक, गेम्स, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। पब्लिक हॉलिडे के कारण 2 अगस्त तक के सप्ताह को, छोटे सप्ताह के तौर पर संचालित किया जाएगा। रजिस्टर करने के लिए 311 पर फोन करें या www.brampton.ca/reccamps पर जाएं।



वर्चुअल (आभासी) कैंप

वर्चुअल कैंप, 4 से 6 और 6 से 10 वर्ष के भागीदारों के लिए नए दोस्त बनाने, सामाजिक कौशल बढ़ाने, अपनी उम्र के बच्चों और परिवारों के साथ रियल-टाइम में बातचीत करते हुए, अपनी गति से रोमांचक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर पेश करते हैं। 6 से 13 और 14 से 20 वर्ष के भागीदारों के लिए, इन्क्लूजन वर्चुअल कैंप (Inclusion Virtual Camps) भी उपलब्ध हैं। सभी प्रोग्रामों का नेतृत्व, वेबएक्स (WebEx) प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के कुशल इंस्ट्रक्टरों के द्वारा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन www.brampton.ca/recathome पर की जा सकती है।

वैक्सीनेशन

जो व्यक्ति, पील में रहते, काम करते या स्कूल जाते हैं और जिनकी उम्र 12 वर्ष या अधिक है, वे अपनी पहली डोज के लिए मुलाकात बुक कर सकते हैं। पहली और दूसरी डोज के बीच समय, 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए कम से कम 28 दिन और 12 से 17 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए कम से कम 8 सप्ताह होना आवश्यक है।

27 जून से, 12 से 17 वर्ष की उम्र वाले बच्चे अपनी दूसरी डोज के लिए बुकिंग कर सकते हैं या पहले की हुई बुकिंग का समय बदल सकते हैं।

कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी के लिए, प्रांत के [वैक्सीन पोर्टल \(vaccine portal\)](#) पर जाएं।

लिंक

- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की कोविड-19 प्रोग्रामिंग और सेवा अपडेट्स \(City of Brampton COVID-19 programming and service updates\)](#)
- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन – क्या खुला है, क्या बंद है \(City of Brampton – what's open, what's closed\)](#)
- [कोविड-19 के लक्षण \(COVID-19 symptoms\)](#)
- [कोविड-19 वैक्सीन \(COVID-19 vaccine\)](#)
- [ब्रैम्पटन में टेस्टिंग \(Testing in Brampton\)](#)
- [खुद को दूसरों से अलग कैसे रखना है \(How to self-isolate\)](#)
- [कोविड-19 के दौरान कारोबारों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखना \(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19\)](#)
- [पील में कोविड-19 के केस \(Cases of COVID-19 in Peel\)](#)



मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca